

# Oracle Credit Limited

(CIN: L65910DL1991PLC043281)  
Regd. Office: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016  
E mail: oracle\_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in  
Website: www.oraclecredit.co.in  
Tel: 011-26167775



**Ref. No.: OCL/2020-21/243**

To  
**Listing Operations**  
BSE Ltd.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai- 400001

**Date: July 27, 2020**

**Scrip Code: 539598**

**Sub: Newspaper publication of Audited Financial Results for the quarter and Year ended March 31, 2020.**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the Newspaper Advertisement of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020, published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on July 26, 2020.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,  
For **Oracle Credit Limited**

**Ashok Kumar Jain**  
**Managing Director**



**Encl: As Above**

# Intel heralds end of era for US chip sector

**BLOOMBERG**  
JULY 25

**INTEL CORPORATION DECISION** to consider outsourcing manufacturing heralds the end of an era in which the company, and the US, dominated the semiconductor industry. The move could reverberate well beyond Silicon Valley, influencing global trade and geopolitics.

The Santa Clara, California-based company has been the largest chipmaker for most of the past 30 years by combining the best designs with cutting-edge factories, several of which are still based in the US.

Most other US chip companies shut or sold domestic plants years ago, and had other firms make the components, mostly in Asia. Intel held out, arguing that doing both improved each side of its operation and created better semiconductors. That strategy is in tatters now, with the company's factories struggling to keep up with the latest 7-nanometer production process. After Chief Executive Officer Bob Swan said Intel is considering outsourcing, the company's shares slumped 16%, when the stock market plumm-

ed in the early days of the Covid-19 pandemic. "We view the roadmap missteps to be a stunning failure for a company once known for flawless execution, and could well represent the end of Intel's computing dominance," Chris Caso, an analyst at Raymond James, wrote in a research note on Friday.

# Scientists identify 21 existing drugs that block coronavirus in lab studies

**SCIENTISTS, INCLUDING THOSE of Indian-origin, have identified 21 existing drugs that stop the replication of the novel coronavirus which causes Covid-19 in lab studies, an advance that may lead to the development of new therapeutic combinations against the disease.**

The researchers, including those from the Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute in the US, analysed one of the world's largest collections of known drugs for their ability to block the replication of the

novel coronavirus, and found 100 molecules with confirmed antiviral activity in laboratory tests. According to the study, published in the journal Nature, 21 of these drugs are effective in blocking the reproduction of the virus at concentrations that could be safely achieved in patients. —PTI

**NATIONAL CEREALS PRODUCTS LIMITED**  
Regd. Office: Solan Brewery — 173214 (H.P.)  
CIN No. L99999HP1948PLC001381  
E-mail: ncp@nationalcereals.com  
Phone No: 01792-230222, 0120-2657001 Extn. 229

**NOTICE**  
NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 10<sup>th</sup> August, 2020 at A-4, Green Avenue Street, Near Church, Vasant Kunj, New Delhi-110070 at 4.00 P.M. to approve and adopt the Company's unaudited financial results (with limited review) for the 1st quarter ended 30th June, 2020.

**For NATIONAL CEREALS PRODUCTS LIMITED**  
Sd/-  
(MINAS KUMAR)  
**SECRETARY**

SOLAN BREWERY  
25<sup>th</sup> July, 2020

**PADAM COTTON YARNS LTD**  
(CIN No.: L17112HR1997PLC033641)  
REGD OFFICE: 196, 1ST FLOOR, OPP. RED CROSS BHAWAN, G.T. ROAD, KARNAL - 132001 (HARYANA)  
www.padamcotton.com email: rajeevswal@yahoo.com Tel: 0184-6616601-9

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the company is scheduled to be held on Friday, 31st July, 2020, to inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30th, 2020.

The information is also available on the Company's website i.e. www.padamcotton.com and also on the website of the stock exchange, where securities of the company are listed, viz. BSE Ltd. www.bseindia.com. (Scrip code: 531395).

By Order of the Board  
For Padam Cotton Yarns Limited Sd/-  
(Rajeev Gupta)  
Managing Director

Place: Karnal  
Dated: July 26th, 2020

**CAPITAL TRUST LIMITED**  
CIN: L65923DL1985PLC195299  
Regd. Ofc: 507 Courtney, DLF Phase, Saket District Centre, New Delhi-110017  
Tel: 9716844571, Website: www.capitaltrust.in

**Notice of 34th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting information**  
NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of CAPITAL TRUST LIMITED will be held through Video Conferencing (VVC)/ Other Audio Visual means (OAVM) on Monday, 10th August, 2020 at 09:00 am to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices to the shareholders is 20th July, 2020.

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at mfo@maserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

These documents are also available on Company's website www.capitaltrust.in for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) through their portal www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Friday, 07th August, 2020 (09:00 am) and ends on Sunday, 09th August, 2020 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 03rd August, 2020, may cast their vote by remote e-voting. Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 03rd August, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk@cdslindia.com or RTA, MAS Services Limited at info@maserv.com. However, if the members are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Shashank Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 19311 & CP No. 7221), Proprietor M/s. Shashank Sharma & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/irregularity relating to e-voting may be addressed to Ms. Tanya Sethi, Company Secretary via Email on cs@capitaltrust.in.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 04th August, 2020 to Monday, 10th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

For Capital Trust Limited  
Sd/-  
Tanya Sethi  
Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: 25.07.2020

**SpiceJet Limited**  
CIN: L51909DL1984PLC288239  
Regd. Office: Indra Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi -110 037  
Website: www.spicejet.com; email: investors@spicejet.com; T: +91 124 3913939; F: +91 124 3913844

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 29<sup>th</sup> day of July, 2020 to consider and approve, inter-alia, the audited standalone and consolidated financial results of the Company for the financial year ended March 31, 2020.

The notice to the stock exchange communicating the above is available on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.spicejet.com.

For SpiceJet Limited  
Sd/-  
Chandan Sand  
Sr. VP (Legal) & Company Secretary

Date : July 25, 2020  
Place : Gurugram

**केनरा बैंक Canara Bank**  
(भारत सरकार का उपयान) (A Govt. of India Undertaking)

**POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)**  
Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Canara Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "The Act") and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notices calling upon the borrower(s) and guarantor(s) on below mentioned dates, to repay the amount mentioned in the notices, within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the Public in General, that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules.

The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Canara Bank for an amount mentioned here in below beside with future interest and other expenses, cost, charges etc against the under mentioned accounts.

The Borrower(s)/Guarantor(s) attention is invited to provision of section 13(1) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name & Add. of Borrower/Guarantor	Description of the Immovable Property	Amount as per Demand Notice	Date of Demand Notice
<b>Branch: Nirvana Country, Gurgaon</b>			
<b>Borrowers:</b> Radha Krishan and Seema Devi	All that part and parcel of the property consisting of Flat No./Plot No. House No. 54B/12 Measuring 132 Sq. Yds. Comprised in Khata No. 6042831 in Krishna Colony Gurgaon owned by Radha Krishan S/o Late Sh. Bhajan Lal. Bounded is under - North: Road, South: Koshra, East: Road, West: Hansraj	Rs. 17,18,162.12 (Rupees Seventeen lacs twenty eight thousand eight hundred sixty two and paise twelve only) + interest and other charges.	05.02.2020
<b>Guarantors:</b> (1) Sanjay Kumar Arora (2) Radha Krishan & Seema Devi			23.07.2020
<b>Gurgaon Cantonment Branch BIC-18210</b>			
<b>Smt. Seema W/o Rambhar</b>	All that part and parcel of the property consisting of Flat No./Plot No. House No. 334 A in Sy. No./City or Town Survey No./Khata No. 2639, 2631 Laxman Vihar Phase-II within the registration sub district Gurgaon and district Gurgaon. Bounded is under - North: Gali, South: House of Akhlesh gaur, East: House of Priy gaur, West: House of Khem Chand	Rs. 8,21,374.62 (Rupees Eight lac twenty one thousand three hundred seventy four and paise sixty two only) + interest and other charges.	03.05.2019
<b>Mr. Satish Kumar S/o Ram Kishore Sharma and Smt. Sarla Devi W/o Satish Kumar</b>	1/2 of residential property No. 25/10M C 8/193-A part of Khata No. 1542/1094 kila no. 77/19/120-4) and khetwat no. 1541/1693 kila no. 77/12/10/10-3) situated at near fly over and opposite local road (Jalali holly road) Gurgaon. Bounded is under - North: Agriculture land of other, South: Palaud - Kulana Road, East: Property of Sh. Anil Kumar, West: Property of Sh. Vinod.	Rs. 9,87,549.60 (Rupees Nine lac eighty seven thousand five hundred forty nine and paise sixty only) + interest and other charges.	02.01.2020
<b>Branch: Hailey Mandi</b>			
			22.07.2020

Place: Gurgaon  
Date: 26/07/2020

Sd/-  
Authorised Officer: Canara Bank

**ORACLE CREDIT LIMITED**  
Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016  
CIN: L65910DL1991PLC043281  
E-mail: oracle\_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in  
Website: www.oraclecredit.co.in Phone: 011-26167775

**Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2020**

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	9.38	6.88	29.32	26.87
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.20	3.68	16.77	14.17
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.20	3.68	16.77	14.17
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.64	2.73	12.51	10.49
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4.64	2.73	12.51	10.49
6	Paid up Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00	555.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet	-	-	22.64	10.13
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualised for quarter)				
	Basic	Rs. 0.083	Rs. 0.049	Rs. 0.225	Rs. 0.189
	Diluted	Rs. 0.083	Rs. 0.049	Rs. 0.225	Rs. 0.189

Notes:  
1. The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.oraclecredit.co.in.  
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on July 25, 2020.  
3. The company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 1, 2019 and effective date of such transition is April 1, 2018.

By the Order of the Board  
For Oracle Credit Limited  
Sd/-  
Ashok Kumar Jain  
Managing Director  
DIN-00091646

Place: New Delhi  
Date: 25.07.2020

**OMAXE LIMITED**  
(CIN: L74899HR1985PLC051916)  
Regd. Office: Shop No.19-B, First Floor, Omare Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram-122001, Haryana  
Corp. Office: Omaxe House, 7, LSC, Kalkaji, New Delhi-110019  
Tel: +91-11-41896680-85  
Fax: +91-11-41896799  
Website: www.omaxe.com  
Email: secretarial\_1@omaxe.com

**NOTICE**

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other relevant Regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, the 29th day of July, 2020 at E-7, Ansal Villa, Farmhouse, Satbari, Chattarpur, New Delhi 110074**, (postponed from 29.06.2020 to 29.07.2020) inter-alia:-

- To consider & approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended on March 31, 2020;
- To consider & approve the enabling resolution for shareholder's approval to undertake fund raising activity;
- To consider & recommend dividend on it's 0.1% Non-Cumulative, Non-Convertible, Redeemable Preference Shares and on Equity Shares, if any, for the Financial Year 2019-20;

Further, to inform that the "Trading Window" for dealing in Equity Shares of the Company which was closed from April 01, 2020 shall continue to remain closed till 48 hours after the declaration of financial results for quarter ended June 30, 2020 pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with BSE & NSE clarification vide Circular no. LIST/COMP/01/2019-20 and NSE/CML/2019/11 respectively and in accordance with Company's Code of Conduct. The same was also intimated to all the Directors, Promoters, Auditors, Key Managerial Personnel and Designated Personnel & their immediate relatives.

This notice is also available on Company's website i.e. www.omaxe.com and on websites of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com, where the Equity Shares of the Company are Listed.

For OMAXE LTD,  
Sd/-  
(Rohtas Goel)  
Chairman & Managing Director

Gurugram  
26.06.2020

**FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST**  
(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**RELEVANT PARTICULARS**

Sr. No.	Name of the corporate debtor	M/s Shri Ganesh Fire Equipments Private Limited
1.	Name of the corporate debtor	M/s Shri Ganesh Fire Equipments Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	14th June 2010
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U29300DL2010PTC204055
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Reg. Office:- First Floor, 6/117, Didar Commercial Complex, DLF Ind. Area, Moti Nagar, West Delhi, Delhi, 110015 Plant Unit I:- 6/8, Ground Floor, Didar Commercial Complex, DLF Industrial Area, Moti Nagar, West Delhi-110015 Plant Unit II:- Plot No. D-4 EPIP, Industrial Area Hapur, Industrial Area, Hapur, Vishnui, Bihar- 844101
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	06th February, 2020
7.	Date of invitation of expression of interest	26th July, 2020
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by e-mail at rekhajp.vrsa@gmail.com and details also available at http://www.vrsalip.com Document Title:- detailed invitation for Expression of interest
9.	Norms of eligibility applicable under section 29A are available at:	Details can be sought by e-mail at rekhajp.vrsa@gmail.com and details also available at http://www.vrsalip.com Document Title:- detailed invitation for Expression of interest
10.	Last date for receipt of expression of interest	10th August, 2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	20th August, 2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	25th August, 2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	04th September, 2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	25th August, 2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	As per provision of regulation 36B(1) IBBP (Insolvency) Resolution process For corporate Person) Regulation, 2016 and further email at rekhajp.vrsa@gmail.com
16.	Last date for submission of resolution plans	24th September, 2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic mode at mentioned mail id in S.No.21 or sealed envelope by hand by post at the address mentioned in S.No.21
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	24th October, 2020 (subject to extension of further period by AA under Sec-12 of IBC, 2016)
19.	Name and registration number of the resolution professional	Ms. Rekha Sharma IBBP/PA-003/PA-ICAI-N-00248/2019-2020/12837
20.	Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Ms. Rekha Sharma Address:- Building No.11, 3rd Floor, Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 E-mail: rekhajp.vrsa@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Address:- Building No.11, 3rd Floor, Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, E-mail id: rekhajp.vrsa@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	This can be obtained by sending a request e-mail at rekhajp.vrsa@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	26th July, 2020

Ms. Rekha Sharma - Resolution Professional -  
M/s Shri Ganesh Fire Equipments Private Limited  
IP Registration No.: IBBP/PA-003/PA-ICAI-N-00248/2019-2020/12837  
Date: 26-07-2020 Address: 11 (3rd floor) Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, E-mail id: rekhajp.vrsa@gmail.com

**ESCORTS FINANCE LIMITED**  
Regd. Office : SCO 64-65, Third Floor, Sector-17A, Chandigarh-160017  
CIN : L65910CH1987PLC033652, Website: www.escortsfinance.com;  
Email: escortsfinance@escorts.com; Phone: 0129-2564116

**EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2020**

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from Operations	0.08	23.94	20.12	50.30
2.	Net Profit/(loss) for the period ( before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.89)	11.82	12.64	14.00
3.	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.89)	11.82	12.64	14.00
4.	Net Profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.89)	11.82	12.64	14.00
5.	Total comprehensive income for the period ( Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(2.68)	6.34	10.31	0.20
6.	Paid-up Equity Share Capital				
7.	Reserve	4,017.25	4,017.25	4,017.25	4,017.25
8.	Earnings per share (of Rs.10/- each) for the period (not annualised): Basic & Diluted	(0.0147)	0.0294	0.0315	0.0348

Notes:-  
1. The above Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 25 July 2020.  
2. The above results are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs.  
3. The Company has a single reportable segment namely financial services (limited to recovery of loan assets) for the purpose of Ind AS-108.  
4. M/s Escorts Benefit Trust (EBT) in terms of the directions of Hon'ble Delhi High Court to repay the unpaid fixed deposit liability, maintains adequate funds to repay the matured unpaid fixed deposit liability. No claim has been settled by EBT during the quarter ended on 30 June 2020. The remaining liability towards unclaimed fixed deposits and interest thereon is Rs. 1,069.84 lacs as on 30 June 2020 (Rs.1069.84 lacs as on 31 March 2020).  
5. Deferred Tax Assets has not been recognised in the books of account as there is no virtual certainty of future taxable income.  
6. Response to auditor's qualifications on the financial results for the quarter ended 30 June 2020:  
(a) Remaining liabilities towards unclaimed matured fixed deposit and interest thereon is Rs.1069.84 lacs as on 30 June 2020 and the same is pending for deposit in Investor Education & Protection Fund. Complete facts have been disclosed in Note 4 above which is self explanatory and does not call for further comments.  
7. The Company had accumulated losses as at the close of the quarter ended 30 June 2020 with its net worth continuing to stand fully eroded. The Company continues to focus on recovery of old delinquent loan assets through settlement/ compromise legal action etc. arising out of its earlier NBFC business. The management is also considering various options to undertake suitable businesses) and therefore the accounts have been prepared on a Going Concern Basis.  
8. The Company had issued 10% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each maturing on 30 March 2019. Due to liquidity crunch, the discharge of the said liability before or on due date of redemption has not been done. The Company has received a No Objection Certificate from the preference share holder extending the maturity period of said Preference Shares for a further period of 20 years. Accordingly, the Company has filed a petition before National Company Law Tribunal (NCLT) on 29 March 2019 seeking issuance of 1% Cumulative Redeemable Preference Shares in place of said Preference Shares with new terms and conditions. This aforesaid matter is pending for hearing before NCLT.  
9. The outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. The management has considered the possible effects that may result from the pandemic on the carrying amount of receivables, loans/advances, investments and other assets / liabilities. Based on the current indicators of future economic conditions, the management expects to recover the carrying amount of these assets. However, the management will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.  
10. The figures for the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary.  
11. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and on the Company's website www.escortsfinance.com.

By Order of the Board  
For Escorts Finance Limited  
Sd/-  
Rajeev Khanna  
Whole Time Director  
DIN 06471489

Place: Faridabad  
Date: 25 July 2020

**JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED**  
CIN: L24116UP1978PLC004624  
Registered Office: Bhartiagarh, Gajraula, District Amroha - 244223, UP  
Email Id: investors@jubl.com, Website: www.jubl.com  
Phone: +91-5924-267200

**NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES**  
Notice is hereby given that the following equity share certificates of Jubilant Life Sciences Limited are reported to have been lost or misplaced and the holder/claimant thereof has applied for issue of duplicate shares certificates in lieu thereof.

Sr. No.	Name & Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos. From	To	No. of Equity Shares of Re. 1 each
1.	Name: Mrs. Ripudaman Kaur Sodhi Folio No.: 17368	209570 209571	134790861 134791111	134791110 134791260	250 150

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of such share certificates should lodge such claim(s) in writing with the Registrar and Transfer Agent, M/s. Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055, Tel: +91-11-23541234, 42541234, Fax: +91-11-41543474 within 15 days of publication of this notice after which no claim shall be entertained and the Registrar and Transfer Agent shall proceed to issue duplicate shares certificates.

For and on Behalf of  
JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED  
RAJIV SHAH  
COMPANY SECRETARY

Place : Noida  
Date: July 25, 2020

**BRAWN™**  
WE ARE OPEN

**JAISWAL BATTERY SERVICE**  
An ISO 9001 & ISO 14001 Company  
11, Church Building, Hazratganj, Lucknow-226001 (UP)

**INDIA BATTERY SERVICES**  
Shahnazaf Road, Hazratganj/Twariganj, Lko.  
Mob.: 840000660, 8400300580

Solar Products | Solar Batteries | Solar Panels  
Solar System | Inverter Batteries  
Automotive/Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) Batteries

**Ind-Swift LABORATORIES Ltd.**  
Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC, Manimajra, Chandigarh - 160 101  
CIN: L24232CH1995PLC015553

**Extract of Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30<sup>th</sup> June, 2020**

PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	Quarter Ended 30.06.2020	Quarter Ended 30.06.2019	Year Ended 31.03.2020	Quarter Ended 30.06.2020	Quarter Ended 30.06.2019	Year Ended 31.03.2020
	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	20978.28	19675.34	78785.72	21619.72	19321.47	81303.86
Profit/(loss) before exceptional items and Tax	416.87	(809.51)	(1956.05)	457.22	(555.53)	(1977.12)
Net Profit/(Loss) before Tax (After exceptional items)	416.87	(809.51)	(1956.05)	457.22	(555.53)	(1977.12)
Net Profit/(Loss) for the period after tax & Exceptional items	416.87	(809.51)	(2076.73)	457.22	(555.53)	(2118.83)
Total Comprehensive Income for the Period	416.87	(809.51)	(2076.73)	457.22	(555.53)	(2113.6

# कारखानों में काम क्षमता के अनुरूप नहीं चला तो बढ़ सकती है खुदरा महंगाई : विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा)।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्णबंदी में काफी कुछ ढील दिए जाने के बावजूद कल-कारखानों में गतिविधियां उनकी क्षमता के अनुरूप शुरू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं बढ़ने से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और खुदरा महंगाई सात फीसद से ऊपर निकल सकती है।

जून, 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 6.09 फीसद रही। हालांकि, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े बाजार से जुड़ा गए सीमित आंकड़ों पर आधारित हैं। कोरोना महामारी रोकने के लिए लागू पूर्णबंदी की वजह से व्यापक स्तर पर शून्य से 1.81 फीसद नीचे रही। लेकिन यह एक माह पहले की तुलना में तेजी से उछली है। मई में यह शून्य से 3.21 फीसद नीचे थी।

बंगलुरु के डॉ. वीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स के कुलपति प्रो. एनआर भानुमूर्ति ने महंगाई के परिदृश्य पर कहा- मुझे लगता है खुदरा मुहंगाई 7 से 7.5 फीसद तक जा सकती है। हाल में सरकार ने जितने भी वित्तीय समर्थन के उपाय किए हैं, वे सभी मांग बढ़ाने वाले हैं। इन उपायों के अमल में आने से मांग बढ़ेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप आपूर्ति नहीं बढ़ी तो महंगाई बढ़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े तो महंगाई का आंकड़ा 8 फीसद तक भी जा सकता है। फल, सब्जी, ईंधन की लागत बढ़ सकती है।

इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन कम्प्लेक्स चाईसेज (आइएएससीए) के प्रोफेसर और सह-संस्थापक अनिल कुमार सूद ने कहा कि महंगाई का आंकड़ा सात फीसद के आसपास रह सकता है। इसमें कमी की संभावनाएं कम ही हैं। कच्चे तेल का दाम बढ़ने से पेट्रोल-

डीजल के दाम हाल में काफी बढ़े हैं। दाल, खाद्य तेल का आयात भी बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने से आयात महंगा होता है। दूरसंचार और परिवहन की लागत बढ़ी है। आपूर्ति शृंखला पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। कोरोना विषाणु का प्रभाव बना हुआ है।

पीएचडी वाणिज्य व उद्योग मंडल के अर्थशास्त्री एसपी शर्मा ने कहा कि कल-कारखानों में फिलहाल क्षमता का इस्तेमाल 50 से 55 फीसद के बीच हो रहा है। आपूर्ति शृंखला पूरी तरह से सामान्य नहीं है। हालांकि, कृषि क्षेत्र यानी खाद्यान्न के मामले में उत्पादन की समस्या नहीं होनी चाहिए। रबी में फसल अच्छी रही है। खरीफ में भी अच्छी रहने की संभावना है। लेकिन कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और कारखानों में पूरी क्षमता से काम नहीं हो पाए से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल के दाम 50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचते हैं तो उसका भी लागत पर असर पड़ सकता है। आयात महंगा होगा, माल-भाड़ा बढ़ सकता है। प्रवासी मजदूरों का भी मुद्दा है। कुशल मजदूरों की कमी से गतिविधियां पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान पांच फीसद तक कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। घरेलू रिंगन मुद्रा एंजंसी इका ने तो चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.5 फीसद की बड़ी गिरावट आने का अनुमान जताया है।

## विदेशी मुद्रा भंडार 517.637 अरब डॉलर की रेकॉर्ड ऊंचाई पर

मुंबई, 25 जुलाई (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.275 अरब डॉलर बढ़कर 517.637 अरब डॉलर की रेकॉर्ड ऊंचाई

पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पूर्व के सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.108 अरब डॉलर बढ़कर 516.362 अरब डॉलर हो गया था।

पांच जून को समाप्त सप्ताह में पहली बार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के स्तर से ऊपर गया था। उस समय यह 8.223 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 501.703 अरब डॉलर हो गया था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने का कारण सत्रह जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आरिंतियों (एफसीए) का बढ़ना है जो कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आरिंतियां 1.245 अरब डॉलर बढ़कर 476.880 अरब डॉलर हो गईं। रिजर्व बैंक के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण आरक्षित भंडार 1.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 34.743 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आइएएम अधिकार 20 लाख डॉलर बढ़कर 1.455 अरब डॉलर हो गया जबकि आइएएमएफ में देश का आरक्षित मुद्रा भंडार 1.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.560 अरब डॉलर हो गया।

## पड़ोसी देशों से खरीद पर रोक स्वागत योग्य : आइईईएमए

लेकिन इसके बाद की स्थिति के लिए भी तैयार रहे भारत मुंबई, 25 जुलाई (भाषा)।

आइईईएमए के अध्यक्ष आरके चुध ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग में प्रभावी रूप से सेवा सुधैया कराने और न केवल भारतीय उद्योग पर प्रतिबंध लगाने का पूरा करने, बल्कि इसके निर्यात को बढ़ाने की क्षमता और लागत प्रतिस्पर्धिता है। यदि हम एक राष्ट्र से कम समय में इसके परिणाम और इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

आइईईएमए इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं का सर्वोच्च निकाय है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़े देशों के लिए सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने पर प्रतिबंध लगाने का सरकारी फैसले का स्वागत किया। हालांकि, उसने इसके साथ ही यह भी कहा कि देश को कम से कम समय में इसके परिणाम और इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

आइईईएमए इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं का सर्वोच्च निकाय है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़े देशों के लिए सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने पर प्रतिबंध लगाने का सरकारी फैसले का स्वागत किया। हालांकि, उसने इसके साथ ही यह भी कहा कि देश को कम से कम समय में इसके परिणाम और इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

## भारत कल सौंपेगा बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन

नई दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा)।

भारत सौंपेगा यानी 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपेगा। रेलवे ने एक बयान में शनिवार को इसकी जानकारी दी। बांग्लादेश को ये इंजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपे जायेंगे। भौतिक रूप से इंजनों का आदान-प्रदान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी

**BRAWN**  
WE ARE OPEN

Solar Products | Solar Batteries | Solar Panels  
Solar System | Inverter Batteries  
Authoritative/Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Batteries

**JAIWAL BATTERY SERVICE**  
An ISO 9001 & ISO 14001 Company  
11, Church Building, Hazratganj, Lucknow-226001 (UP)

**INDIA BATTERY SERVICES**  
Shahnazaf Road, Hazratganj/Tiwari Ganj, Lko.

Mob.: 840000660, 8400300580

**SpiceJet Limited**  
CIN: L51909DL1984PLC288239  
Regd. Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi - 110 037

Website: www.spicejet.com; Email: investors@spicejet.com; T: +91 124 3913939; F: +91 124 3913844

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 29<sup>th</sup> day of July, 2020 to consider and approve, inter-alia, the audited standalone and consolidated financial results of the Company for the financial year ended March 31, 2020.

The notice to the stock exchange communicating the above is available on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.spicejet.com.

For SpiceJet Limited  
Sd/-  
Chandan Sand  
Date : July 25, 2020  
Place : Gurugram Sr. VP (Legal) & Company Secretary

**एनटीपीसी NTPC एन टी पी सी लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उद्यम)

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी)

प्रोत्सर्ग/लेवर्ड, विद्युत उत्पादन कर्तवियों के प्राथिकता वित्तीय मध्यस्थ, स्वतंत्र विद्युत निर्यात/डेवलपमेंट से भारत में स्थित अपने योग्य पर्यटन सौर आधारित विद्युत सन्निधियों की प्रवेशिका के लिए आचारित विद्युत सन्निधियों की एनटीपीसी द्वारा सन्निधित जयिग्रहण की प्रवेशिका के लिए

आरएफपी नं. RE-ASSET-004-01 दिनांक: 24.07.2020

प्रस्ताव दर्ताव्यवस्था संख्या: RE-CS-ASSET-004-01

एनटीपीसी, भारत की सरसरे बड़ी, भारत का बृहत्तम विद्युत उत्पादक कंपनी, प्रोत्सर्ग/लेवर्ड, विद्युत उत्पादन कर्तवियों के प्राथिकता वित्तीय मध्यस्थ, स्वतंत्र विद्युत निर्यात/डेवलपमेंट से भारत में स्थित अपने योग्य पर्यटन सौर आधारित विद्युत सन्निधियों की प्रवेशिका के लिए एनटीपीसी की निविदा वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार दो वर्षों (स्टेज-1: टेंडर-1-कर्मचिंतित और स्टेज-1: प्रवेशिका) में ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव दर्ताव्यवस्था संख्या 24.07.2020 तक मुक्त दर्ताव्यवस्था किए जा सकते हैं।

स्टेज-1 (कर्मचिंतित-प्रवेशिका) प्रस्तावों को 22.09.2020, 1430 बजे (आइएसटी) तक प्राप्त किया जाएगा और उन्ही दिन 1500 बजे (आइएसटी) खोलें जाएगा। स्टेज-1 (1 मूल्या) प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि को स्टेज-1 (टिकनी-कर्मचिंतित) प्रस्तावों के खुलने के बाद उद्योग से सूचित किया जाएगा।

इच्छुक आवेदकों को विस्तृत आरएफपी/प्रस्ताव दर्ताव्यवस्था हमारी वेबसाइट [www.nptctender.com](http://www.nptctender.com) या <https://www.bharat-electronictender.com> पर निविदा खोलने कोड **NTPC-2020-TN000015** के साथ उभर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक आवेदक उपलब्धतासूचक (RE-CS)/वित्त प्रवेशिका (RE-CS), एनटीपीसी लिमिटेड, नौराज नगर, नई दिल्ली - 110003, CIN: L40101DL1975GOI007966

ई मेल: [abhishekhaharjharjee@ntpc.co.in](mailto:abhishekhaharjharjee@ntpc.co.in), [shalindra@ntpc.co.in](mailto:shalindra@ntpc.co.in)

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी बयन, कोयल कॉम्प्लेक्स, 7, इस्टीट्यूटलान्ड एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, CIN: L40101DL1975GOI007966

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

**GOODLUCK गुडलक इंडिया लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: 509, अक्षयवाचक भवन, बाराकला रोड, कॉन्टैक्ट फ्लेस, नई दिल्ली-110001, Website: [www.goodluckindia.com](http://www.goodluckindia.com)

E-mail: [goodluck@goodluckindia.com](mailto:goodluck@goodluckindia.com) | CIN: L74899DL1986PLC050910

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईडीपीएफ) प्राधिकार में कंपनी के इन्विस्टमेंट रोयर्सों के अंतरण की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार निवेशक शिक्षा और सूचना निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) के नियम 6 (3) के साथ पठित। इसके तहत गुडलक इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों को नोटिस दिया गया है-

उक्त नियमों के अनुसार, यदि कोई शेयरधारक सात वर्ष या उससे अधिक की लागतार अवधि के लिए लगातार राशि का दावा नहीं करता है, तो उसके (सूचक) उसके (महिना) पास मौजूद शेयरों को नियमों के अनुसार गतिविधित निवेशक शिक्षा और सूचना निधि प्राधिकरण ("आईडीपीएफ प्राधिकरण") के जॉइंट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वर्ष 2012-2013 के दौरान घोषित लाभांश को सात साल की अवधि के लिए अदलत या लागारित रहेगा, उसे आईडीपीएफ को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

राज्यसूचक, उन सभी शेयरधारकों को शेयर, जितनेही निवेशक शिक्षा को प्राप्त करते हुए, इस विधि में शेयरधारकों को लक्ष्यमान स्थिति के तहत वित्त से जल्द आवश्यक संस्कार लेना जा सकता है। ऐसे शेयरधारकों के पूर्ण विवरण निम्नलिखित उक्त नाम, फोटोसो नंबर या डीपी आईडी और क्लेअर आईडी और स्थानांतरण के कारण शेयर शामिल है, जो कंपनी की वेबसाइट [www.goodluckindia.com](http://www.goodluckindia.com) पर भी पोस्ट किया गया है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे लागारित लाभांश का दावा करें। नियमों के अनुसार, बिना किसी सूचना के आईडीपीएफ को हस्तांतरित होने वाले शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

यदि शेयरधारक अपने शेयरों / लाभांश (शे) का आईडीपीएफ में स्थानांतरण के बाद दावा करना चाहता है, आईडीपीएफ प्राधिकरण के रूप में आईडीपीएफ के नियमों के तहत एक अलग अलग बयान होगा, जैसा कि आईडीपीएफ नियमों के तहत निर्धारित है और वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी [www.lepf.gov.in](http://www.lepf.gov.in) और उसी विधिगत हस्तांतरित की एक नैतिक प्रति, कंपनी को आईडीपीएफ-3 के रूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजी जानी चाहिए।

इसके अलावा, यदि शेयरधारकों के पास वित्त वस्तु या नियमों पर कोई प्रश्न है, तो वे कंपनी के आउटरीच से, मेस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, ओल्डला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली मार्ग नई दिल्ली-110020, टेलीफोन नं. 011-26387281, ईमेल-[info@masserv.com](mailto:info@masserv.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान: गाजियाबाद  
दिनांक: 25.07.2020

**BLS BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED**  
Regd Office: G-4 B-1, Extension Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044  
CIN: L51909DL1963PLC016907; Website: <http://www.blsinternational.com>  
Email: [compliance@blsinternational.net](mailto:compliance@blsinternational.net); Contact no. +91-11-46990006

**NOTICE**

Pursuant to Provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, July 29<sup>th</sup>, 2020 at 1<sup>st</sup> Floor, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi-110001 inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results for the first quarter ended on 30<sup>th</sup> June 2020.

Pursuant to provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the Trading Window for dealing in the securities of the Company already closed for Directors, Officers and Designated Employees of the Company will reopen 48 hours after the Un-audited Financial Results for the first quarter ended on 30<sup>th</sup> June 2020 are made public on July 29<sup>th</sup>, 2020.

The information contained in this Notice is also available on the Company's website [www.blsinternational.com](http://www.blsinternational.com) and on the website of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), BSE Limited [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. [www.msxel.in](http://www.msxel.in).

By Order of the Board  
For BLS International Services Ltd.  
Sd/-  
Amit Sudhakar  
Place: New Delhi  
Date: 25.07.2020 (Chief Financial Officer)

**JINDAL CAPITAL LTD.**  
Regd Office: 79-A Kamla Nagar Delhi-110007  
CIN: L74899DL1994PLC059720  
Website: [www.jindalcapital.in](http://www.jindalcapital.in)  
Email: [investor@jindalcapital.in](mailto:investor@jindalcapital.in)  
Phone: 011 23841536

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on Friday, 31<sup>st</sup> July, 2020 to consider and take on record Unaudited Quarterly financial results for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2020.

It is further informed that pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and pursuant to the internal code for prevention of insider trading of the Company, the Trading Window for dealing in the securities of the Company by its Directors & designated employees shall remain closed from July 23, 2020 until the closing of business hours on August 02, 2020 on account of declaration of the aforesaid Un-audited Financial Results of the company.

For Jindal Capital Ltd.  
Sd/-  
Pawan Kumar Jindal  
Managing Director  
DIN: 00524690

Place: Delhi  
Date: 25.07.2020

**INDIAN SUCROSE LIMITED**  
CIN: L15424PB1990PLC010903  
Registered Office: G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211  
Phone: +91-9115110651/52/53  
Website: [www.muksug.com](http://www.muksug.com),  
[Email:regulare@muksug.com](mailto:Email:regulare@muksug.com),  
[info@muksugcorporation.com](mailto:info@muksugcorporation.com)

**NOTICE CALLING BOARD MEETING**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & disclosure Requirements) Regulations 2015, (LODR Regulations) that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, the 29<sup>th</sup> Day of July 2020 at 4:00 P.M.** at registered office of G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211 at inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and ended 31<sup>st</sup> day of March, 2020 and to transact all other business with the permission of the chair.

Copy of this notice is also available on the website of the Company [www.muksug.com](http://www.muksug.com) and the website of BSE Limited [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**अग्रवाल ड्युप्लेक्स बाई मिल्स लिमिटेड**  
CIN: L39999DL1984PLC019052

पंजी. कार्यालय: 217, अग्रवाल प्रॉटेज्ड बिल्डिंग, फ्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेंटर, रोड नं. 44 पर, पीतम्बर, दिल्ली- 110034, फोन नं. 011-47527700  
Website: [www.agrawalduplex.com](http://www.agrawalduplex.com)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दलित तथा उद्घाटन अधिका) नियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदर्शितियों में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 31 जुलाई, 2020 को 11.30 बजे पूर्वा, 12, बल्लभभाइ, फरीदाबाद-121004 तथा गार्वरों: 1) राजीव पंचार, पुत्र श्री कांछी सिंह, एच. नं. 390, आदर्श नगर, गली नं. 12, बल्लभभाइ, फरीदाबाद-121004, 2) राजीव पंचार, पुत्र श्री कांछी सिंह, सीओ ओपेनर मार्केटिंग सर्विसेस प्रा. लि., 31, प्रथम तल, सुभाई इका टावर हाउस, पार्क वॉय सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचना की प्रतिलिपि को 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5,02,743.00 (संक्षेप पांच लाख दो हजार सात सौ नौसहस्र रुपए) + 81.2020 से अनुबंधित दर पर आगे के व्याज सहित अनुबंधित खर्च लागत, चार्जेंस आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। खता सं. 65054277046 के माध्यम से अग्रवाल/गार्वर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अग्रवाल/गार्वर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 25 जुलाई, 2020 को अग्रवाल/गार्वर ने उक्त निवामावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम को धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदर्शितियों का प्रयोग करते हुए अग्रवाल/गार्वर ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अग्रवाल/गार्वरों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि ये यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों को किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 5,02,743.00 (संक्षेप पांच लाख दो हजार सात सौ नौसहस्र रुपए) तथा 81.2020 से अनुबंधित दर पर आगे के व्याज के साथ अनुबंधित खर्च, लागत, चार्जेंस आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अवल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति एच. नं. 235, सेक्टर-21ए, फरीदाबाद-121002, क्षेत्रफल माप 4833.20 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिरसा। सम्पत्ति को गार्वरी कीकरवाल, श्रीमती हरजान सिंह, श्री सरवजीत सिंह तथा राजवर्द्धन कोर द्वारा दी गई है।

दिनांक: 25.7.2020  
स्थान: फरीदाबाद

प्रधिकृत अधिकारी  
भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एएएसआरसी

**कार्यालय आविष्कार, नगर पालिक निगम, ग्वालियर**

क्र. क्यू 2/20/2/10/विज्ञापन शाखा दिनांक: 23-07-2020

**ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना**

नगर पालिका निगम, ग्वालियर म.प्र. आउटडोर विज्ञान मीडिया नियम 2017 के अनुसार नगर निगम, ग्वालियर निगम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र खुली भूमि पर विज्ञान कार्य हेतु युनिफोर्न लगाकर विज्ञान करने हेतु ई-टेंडर के माध्यम से फेज-1 का प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है। निम्नकी टेंडर आइ.डी. 2020\_UAD\_98958\_1, 2020\_UAD\_98963\_1, 2020\_UAD\_98967\_1, 2020\_UAD\_98971\_1, के लिये दिनांक 23/07/2020 से 24/08/2020 तक निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से ब्रय की जा सकती है, अधिक जानकारी के लिये मोडल अधिकारी विज्ञान शाखा श्री केवा सिंह चौहान, मो. 97130515710 पर सम्पर्क कर सकते हैं। निविदा को संशोधन में विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर प्राप्त की जा सकती है।

नोडल अधिकारी, विज्ञापन शाखा, नगर निगम, ग्वालियर

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)  
Regional Office: Vahurati Khand, Gontli Nagar, Lucknow-226010

No. CWC/RK-LO/EE/NIT/2020-21/ Dated: 24.07.2020

Press Notice  
Inviting E-Tender No. 42/43

CWC Invites online tender from the contractors for the following work:

Sr	Name of Work	Estimated Cost in Rs.	Last date of online submission of tender
1	Construction of 2000 MTC godown with electrical Installation at CW Robertsganj (UP)	Rs. 10690939.80	17.08.2020
2	Reconstruction of 1920 MTC godown with electrical Installation at CW Bahraich (UP)	Rs. 8394419.28	10.08.2020

Detailed Tender Notice alongwith conditions of contract and Notices Inviting E-Tender may be seen and downloaded from the CWC website [www.cwcorpnl.com](http://www.cwcorpnl.com) or e-tender website [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) or CPP Portal <http://procure.gov.in/publish/agg>. Further Corrigendum/Addendum to this tender, if any, will be published on website [www.cwcorpnl.com](http://www.cwcorpnl.com) in <http://procure.gov.in/publish/agg> (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.

**EXECUTIVE ENGINEER(C)**

**ORACLE CREDIT LIMITED**  
Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016  
CIN: L65910DL1991PLC043281  
E-mail: [oracle\\_credit@yahoo.com](mailto:oracle_credit@yahoo.com), [info@oraclecredit.co.in](mailto:info@oraclecredit.co.in)  
Website: [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in), Phone: 011-26167775

**Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2020 (Rs. In lacs)**

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	9.20	6.88	29.32	26.87
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.20	3.68	16.77	14.17
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.20	3.68	16.77	14.17
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.64	2.73	12.51	10.49
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4.64	2.73	12.51	10.49
6	Paid up Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00	555.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet	-	-	22.64	10.13
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter)	Rs. 0.083	Rs. 0.049	Rs. 0.225	Rs. 0.189
	Diluted	Rs. 0.083	Rs. 0.049	Rs. 0.225	Rs. 0.189

**Notes:**

- The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's Website at [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in).
- The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on July 25, 2020.
- The company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 1, 2019 and effective date of such transition is April 1, 2018.

By the Order of the Board  
For Oracle Credit Limited  
Sd/-  
Ashok Kumar Jain  
Managing Director  
DIN-00901646

Place: New Delhi  
Date: 25.07.2020

**VANI COMMERCIALS LIMITED**  
Regd. Off: "AASTHA", LP-11C, Pitampura, New Delhi - 110034  
CIN: L74899DL1986PLC106425, Ph: 011-27324080  
Website: [www.vanicommercials.com](http://www.vanicommercials.com), Email ID: [info@vanicommercials.com](mailto:info@vanicommercials.com)

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020**

Sl. No.	Particulars	3 months ended		Corresponding	
		30.06.2020	30.06.2019	3 months ended	31.03.2020
1	Total Income from Operations	13.449	6.482	54.345	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional Items)	1.234	0.484	2.478	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	1.234	0.484	2.478	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	1.234	0.484	0.348	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	N.A.	N.A.	N.A.	
6	Equity Share Capital	411.980	411.980	411.980	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.000	0.000	3.819	
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each)	0.030	0.010	0.010	
	Diluted (₹):	0.030	0.010	0.010	

**Note:**

a) The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 25.07.2020. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results is available on the Company's website ([www.vanicommercials.com](http://www.vanicommercials.com)) and on the website of BSE Limited ([www.bseindia.com</](http://www.bseindia.com)